

ध्यान दें : समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र/ छात्राओं लिए छात्रवृत्ति

आवेदन फार्म भरने के लिए निर्देश

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम (हिन्दी में): छात्र अपना पूरा नाम हिन्दी में भरें | (उदाहरण: अमित कुमार)
2. छात्रों को अपना पूरा नाम अंग्रेज़ी में कैपिटल अक्षरों में भी भरना होगा | (उदाहरण: AMIT KUMAR)
3. छात्र/छात्रा की वर्तमान कक्षा: छात्र अपनी वर्तमान कक्षा का नाम भरें | (उदाहरण: 10)
4. छात्र/छात्रा की विगत वर्ष की कक्षा: छात्र अपनी विगत वर्ष की कक्षा का नाम भरें | (उदाहरण: 9)
5. पिता एवं माता का पूरा नाम हिंदी या अंग्रेज़ी में भरें | यदि माता पिता जीवित न हो अभिभावक का नाम भरें|
6. लिंग को चिह्नित करने के लिए सही खाने पर निशान लगाएँ (उदाहरण: बालक)
7. जाति को चिह्नित करने के लिए सही खाने पर निशान लगाएँ (उदाहरण: अनुसूचित जाति)
(सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो विकलांगता की श्रेणी में आते हो, केवल वे ही इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे)
8. छात्र अपना पूर्ण जन्मतिथि दिनांक,माह,वर्ष भरें |(उदाहरण:

2	2	1	2	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

)
9. यदि आधार क्रमांक हो तो भरें | (उदाहरण:

2	0	2	2	2	1	2	3	2	4	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

)
10. स्थायी पता:- छात्र अपने स्थायी पते में मकान न., मोहल्ला, पोस्ट आफिस, जिला एवं पिन कोड अवश्य भरें |
11. छात्र छात्र अपने पत्राचार पते में मकान न., मोहल्ला, पोस्ट आफिस, जिला, राज्य एवं पिन कोड अवश्य भरें |
12. यदि छात्र/छात्रा 11वीं या 12वीं का/की विद्यार्थी है, तो छात्र अपना हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाईस्कूल का अनुक्रमांक, विद्यालय का नाम एवं बोर्ड का नाम अवश्य भरें |
13. मोबाईल न: छात्र अपना संपर्क संपर्क नंबर अवश्य भरें |(उदाहरण: 9898765454)
14. यदि छात्र की ई-मेल आई.डी उपलब्ध हो तो स्पष्ट अक्षरों में अवश्य भरें|(उदाहरण: amitkumar@gmail.com)
15. माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय एवं आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या स्पष्ट अक्षरों में भरें|(आय प्रमाण पत्र माता/पिता/अभिभावक के नाम पर तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए)
16. आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम, तहसील जहाँ से आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक स्पष्ट अक्षरों में अवश्य भरें |
17. जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तहसील का नाम जहाँ से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक स्पष्ट अक्षरों में अवश्य भरें | (जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए)
18. यदि छात्र होस्टलर है तो हाँ भरें एवं प्रवेश तिथि भी अवश्य भरें अथवा नहीं भरें |
(होस्टलर का तात्पर्य ऐसे शासकीय/ मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां पर सरकार द्वारा होस्टल की सुविधा प्रदान की गयी है। निजी होस्टलों में आवासित विद्यार्थी नहीं विकल्प का चयन करें।)
19. यदि छात्र विकलांग है तो उचित विकलांगता चिह्नित करे |(उदाहरण: बहरापन)
20. विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक अवश्य भरें | (विकलांगता प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए)
21. बैंक, ब्रांच का नाम , बैंक आई एफ एस सी कोड एवं बैंक खाता संख्या अवश्य भरें | (छात्र का केवल सी0बी0एस0 बैंक खाता हो और आवेदन में छात्र का नाम एवं बैंक में उल्लिखित नाम एक ही होने चाहिए)